



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 26, 1982/भाद्र 4, 1904
No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 1982/BHADRA 4. 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1982

सा. का. नि. 541 (अ) —केंद्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों और व्यक्तियों के वर्गों को छूट दी जाए और कतिपय वर्गों की आयुध और गोला-बारूद को अपवर्जित किया जाए,

अतः केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आयोगन समिति, नवम् एशियाई खेल, दिल्ली 1982 द्वारा अधिसूचित किसी दश के उम्र व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जो दिल्ली में 1982 में होने वाले नवम् एशियाई खेलों में निशाने बाजी के खेलों में भाग लेने के सम्बन्ध में भाग ले रहे हैं, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 3 और 10(1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है ;

परन्तु यह कि इसके द्वारा दी गई छूट निम्नीलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् —

(क) डाक घर के माध्यम से आयुध और गोला-बारूद का आयात करना विधिपूर्ण नहीं होगा,

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आयुध और गोलाबारूद कब्जे में रखना या लेकर चलना, अनुज्ञापन अधि-कारी द्वारा ऐसे प्रोफार्मा में जारी की जाने वाली अनुज्ञा के अधीन होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(ग) छूट प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग —

- (1) जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशिष्ट रूप से छूट न दी जाए, ऐसी रीति में और ऐसे स्थान पर जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर विहित करे, उस अग्नायुध या गोलाबारूद को, जिसकी बाबत छूट मंजूर की गई है रजिस्टर कराएगा,
- (2) उन विभिन्न प्रकार के आयुध और गोला-बारूद के विषय में जिनकी बाबत छूट दी गई है ऐसे सांख्यिकीय जागरूकी ऐसे प्रोफार्मा में यदि कोई हो, देगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो,
- (3) जब कभी कोई ऐसा आयुध या गोला-बारूद जिसकी बाबत छूट दी गई है, खो जाता है, या उसकी चोरी हो जाती है, तो तुरन्त ऐसे खो जाने या चोरी हो जाने की घटना की रिपोर्ट को गई वस्तुओं या चोरी हो गई वस्तुओं के विवरण

सहित सबसे समीप के पुलिस स्टेशन में
करेगा।

[नं. वी.-11016/9/81-जी. पी. ए.-5]

आर. एम. अग्रवाल, संचालक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1982

G.S.R. 541(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient in the public interest to exempt certain persons and classes of persons and exclude certain descriptions of arms and ammunition from the operation of all or some of the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of that Act, the Central Government hereby exempts the person or persons from a country notified by the Special Organising Committee, IX Asian Games, Delhi, 1982, coming to India in connection with participation in the shooting events in the forthcoming IX Asian Games to be held in Delhi in 1982, from the operation of sections 3 and 10(1) of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) ;

Provided that the exemption hereby granted shall be subject to the following further conditions, namely :—

- (a) it shall not be deemed to render lawful the import of arms or ammunition through the medium of post office ;
- (b) the possession and carrying of arms and ammunition by the person or persons shall be subject to a permit to be issued by the licensing authority in such proforma as may be prescribed by the Central Government ;
- (c) the persons or classes of persons exempted shall—
 - (i) unless specifically exempted by the Central Government by notification in the Official Gazette, register in such manner and at such place as the Central Government may prescribe from time to time any firearm or ammunition in respect of which the exemption has been granted ;
 - (ii) render such statistical information about different description of arms and ammunition in respect of which the exemption has been granted in such proforma, if any, as may be required by the Central Government ;
 - (iii) whenever any arm or ammunition in respect of which exemption is granted is lost or stolen, forthwith report the occurrence of such loss or theft together with the details of the articles lost or stolen at the nearest police station.

[No. V. 11016/9/81-G.P.A.V.]

R. M. AGARWAL, Jr. Secy.